

VOL-2 August 2024 Chartered in 1980 Charter No. 15407

### August 2024- Membership and New Club Development Month



Rtn.Stephanie A. Urchick (RI President 2024-25)



Rtn. Paritosh Bajaj (DG 2024-25)



Rtn. Radha Saxena (President 2024-25)



Rtn. Neeruj Chugh (Secretary 2024-25)



*Rtn. Swati Kharbanda* (Editor 2024-25)

# Services & Meetings - July 2024

**Project 1- Mother and Child Care Dated- 3<sup>rd</sup> July 2024** 

The Club distributed mother and child care kits to expecting mothers of primary school, Colonelganj. The kit included baby net, gripe water, baby soap, baby powder, pain-relief cream e.t.c.



**Project 2- Felicitation Ceremony Dated- 5<sup>th</sup> July 2024** 

The Club felicitated Doctors and CAs of The Club at Hotel Kasba. President Rtn. Radha Saxena said 'the Doctors' knowledge and procedures are crucial in restoring health and well being of patients and CAs help the nation in economy related actions to boost the country's economy.'





**Project 3- Sharing and Caring Dated- 10<sup>th</sup> July 2024** 

The Club distributed raincoats to vegetable and fruit vendors near AG Office. The project was sponsored by PP Rtn. Shrish Agarwal.





Project 4- Aatma Raksha Dated- 11<sup>th</sup> July 2024

The Club, in collaboration with Red Belt Academy organised a selfdefence camp at Mook Badhir Vidyalaya. Rtn. Smriti Shangloo emphasised the importance of self- defence in today's life and taught the inmates few tricks of the same.



*Project 5- Be Fit & Healthy Dated- 12<sup>th</sup> July 2024* 

The Club organised a session on body positivity and health. Fitness trainer Prerna Saran was the key speaker who emphasised that a healthy and a mind are essential for fitness.





**Project 6- Talent Hunt with Interacters Dated- 15ht July 2024** 

The Club organised a talent hunt competition with Interact club of Sanskar International School. In which participants displayed their talent in the field of music, painting, sketching, jewellery making etc. The program chairman was IPP Amrita Agarwal



### Project 7- Aatma Raksha Dated -15<sup>th</sup> July 2024

The club in collaboration with Red Belt Academy organised a self defence camp at Mook Badhir Vidyalaya. Rtn. Smriti Shangloo acquainted students with the skills if self- defence and encouraged to patronize their safety.



Project 8- Diksha Dated- 18<sup>th</sup> July 2024

The Club distributed books, notebooks and stationary items sponsored by Rtn. Abhishek Ranjan Agarwal and also distributed towels, bed sheets e.t.c, to the students of Vanvasi Kalyan Ashram.



Project 9- Taru Vatika Dated- 21<sup>st</sup> July 2024

Plantation drive was organised by the club on the occasion of Guru Purnima. Around hundred saplings of neem, nimbu, guava, peepal e.t.c, were planted. The event was headed by Rtn. CA Vinay Goel.



Project 10- Ayushman Bhava Dated- 22<sup>nd</sup> July 2024

A free of cost health checkup camp was organised at HP Junction, Kanti. The event was headed by PP Rtn. Rajiv Maheshwari.





## Project 11- Atma Raksha Dated- 25<sup>th</sup> July 2024

The Club along with Red Belt Academy organised a yet another selfdefence at Mook Bandhir Vidyalaya. Rtn. Smriti Shangloo was the chairperson of the project.



Project 12- Khojo Apne Aap Ko Dated- 27<sup>th</sup> July 2024

The Club felicitated rotarians of the club who emparted the career guidance for students of class 12<sup>th</sup> of YMCA school. The workshop was held on 2<sup>nd</sup> July.



## Project 13- Rakt Sashakt Dated- 28<sup>th</sup> July 2024

The Club organised a blood donation camp at YMCA school in association with Rotary Royals. Twenty-five units of blood was collected. The chairman of the event was PP Rtn. Saurabh Puri.





# <u>Media Coverage</u>

### रोटरी इलाहाबाद मिडटाउन का अधिष्ठापन समारोह आयोजित



जारवल चयागवृत्त । टंडन थे समारोह औपचारिक टीण शुरू अमुला अम

और वर्ष 2023–24 में संचालित गतिपितियें और उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ हुई । सामिव स्ति केमेने अदिवित्ते ने 122 अपलंकांश्वर कमने प्रवासकारयों का भाषाय प्रियिधालमां की पर्णवासपूर्वक कमना मा पाए पर पर की मैं स्वेते निम्पादित करने के लिए दीम की महत्वाकांकी पिरोधानकों पर प्रवास स्वार्गता के प्रवास करने को भाषायता उक्क बाता पुष्ठा अतिकि अठला साल हातित किया। मई अध्यात प्राप्त देवन हात ऐस्टी हातावाय विद्यालन पर प्रत्नोना और परिवेद पिराज पुरा को के महत्वा प्रयोदा प्रायोध का स्वार्थना के निन एवं वर्तित के आराम प्रदान के लो प्राप्त करने ने इसके सारकार का

# , समये, असरार पर 1 , के करवा के असरार पर 1 , र परिषच कुए। समावेह भे नेदाराजा पर प्रकाज सरायाल रूज् 'कार्मिय की ऊलम सरायल रूज् 'कार्मिय की उलम सरायल रूज 'स्वर्क सार्टन' साथ समारोहपूर्वक स्थ गया । तत्प्रस्वात अ सक्सेना द्वारा नई का कर्मट पदाधिकारियों

#### रोटरी डलाहाबाद मिडटाउन ने किया बारिश से बचाव हेतु जैकेट का वितरण

लिस के उ का भी प्रय एसपी उ

थीं लूट के

ोह के राज

54





### रोटरी इलाहाबाद मिडटाउन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन



### रम साए पारसर सफल आयाजन चॉयल्स के साथ १०:०० से दोपहर

आशुतोष उपरिथल

#### राधा बनीं रोटरी मिडटाउन अध्यक्ष, नीरज सचिव



प्रयागराज। रोटरी इलाहाबाद मिडटाउन के 45वें अधिष्ठापन समारोह में नए सत्र के पदाधिकारियों को रविवार को शपथ दिलाई गई। सिविल लाइंस स्थित एक होटल में सत्र 2024-25 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधा सक्सेना, सचिव नीरज चुग को पिन व कॉलर पहनाकर पदभार ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण टंडन ने किया। अरुण टंडन ने कहा कि मानवीय प्रयासों और महान लक्ष्यों को प्राप्त करने में रोटरी के सदस्य हमेशा आगे रहते हैं। पूर्व अध्यक्ष अमृता अग्रवाल ने 2023-24 की गतिविधियों की रिपोर्ट दी। इस मौके पर विनायक टंडन, नीरज मेहरोत्रा, राजीव महेश्वरी, संजय गुप्ता, सतपाल गुलाटी, प्रदीप मुखर्जी आदि शामिल हुए। संवाद

### रोटरी मिडटाउन ने किया मूक बधिर विद्यालय में आत्मरक्षा कक्षा का आयोजन

प्रयागराज। रोटरी इलाहाबाद मिडटाउन ने रेड बेल्ट एकैडमी के सहयोग आज मूक बधिर विद्यालय में आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया। इस कक्षा उद्देश्य छात्रों को आत्मरक्षा के गुणों से अवगत कराना और उन्हें के लिए प्रोत्साहित करना है।

का Icity आस्साहत करना हा 'इड बेल्ट एकंडमी के निदेशक रोटेरियन स्मृति शांगलू ने बताया आत्मरक्षा का महत्व आज के समय में बहुत अधिक है। आत्मरक्षा कक्षा से छत्रों को आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम होते हैं। यह किसी को खतराका स्थिरियों से निपटने और संभावित शारीरिक हमलों से बचने में सबूम बनाता है। रेड बेल्ट एकेडमी के क्रिग्धा गुसा, सुयांशु गुप्ता, दिव्यांशु यादव, नीलेश केसरवानी, महिमा श्रीवास्तव ने भी बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। इस अवसर पर विद्यालय के प्राध्यापक के एन मिश्रा, सह प्राध्यापक संजय, अध्यापकगण, क्लब अध्यक्ष राधा सक्सेना, अभिषेक सिंह, आशीष चौधरी, अभिषेक रंजन अग्रवाल, मनु सक्सेना इत्यादि उपस्थित रहे।

### रोटरी इलाहाबाद मिडटाउन ने गुरू पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया वृक्षारोपण

अभियान-2024 का शुभारंभ, लगाए जाएंगे हजारों पौधे

अभियान-2024 का शुभार भाषाराज विधान किला?)। किटरे जलाकाल को जुरू पृणिस के युभ्य अस्तर के प्रकार के युभ्य अस्तर के महत्व पर समय-सम्तय पर की व्यक्त के महत्व पर समय-सम्तय पर की व्यक्त का युभ्य की आवस्यकका का निस्ते की कुमर्काय की आवस्य का जिन्दा की कार्यरा की आवस्य का जान्यी। इस्त्र को मई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषको हो मई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषको हो मई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषको हो कि की व्यक्त में कहा की जान्या।



का स्वागत किया । वर्लाब अध्यक्षा राधा स्वरसेना ने कहा कि क्लब की तरफ से ये बृक्ष स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ विश्व में प्यार और शांति की लहर भी हर जगह से जाए, रही कामना है कार्यक्रम में स्कूल के प्राध्यापक स्वास्तिक बोस सचिव नीरज चुव, पंकज जैन हरप्रीत सिंह भाटिया सौरम अववाल आदि उपस्थित रहे।



इलाहाबाद रॉयल्स की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर । स्रोत स्वयं गया रक्तदान शिविर। सेक स्वयं प्रयागराज। रोटरी इलाहाबाद रॉयल्स व रोटरी मिडटाउन की ओर से रविवार को वाइंएमसीए में आयोजित शिविर में 26 लोगों ने रक्तदान किया। अध्यक्ष शासिंली जैन ने बताया कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए ही हमने जिंदगी पाई है। रक्तदान करने वालों में क्लव सचिव अंजली अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, शालिनी जैन, आशुत्तोष अग्रवाल, देवांग सांवला रहीं। इस मौके पर चेयरपर्सन संगीता सांवला, बानी मिइढा, गरिमा, शिग्ना, स्मिता रहीं। संवाद

#### **Rotary Alld Midtown honours CA & Doctors**



Staff Reporter Prayagraj: Rotary Allahabad Midtown honored Chartered Accountants and Doctors a Daying Cir, two do constraints and Destroyal control documentation and Destroyal control theorem on both theol Kashon mixing. The control theorem of the theorem on the theorem on an integral part of Induits economy, helping businesses stay financially healthy and sompliant. During the ceremony, doctors including De, Anxon Chaulan, De, April Banaal, De, Aduton Chaudhany, De, B.B. Agarwal, Dr. Dilip Chaurasia, Dr. Neeraj, Dr.

Probal Niyogi, Dr. Ritsch, Dr. Sanjeev, Dr. Shobhit, Dr. Vandana Bansal, Dr. Indrajeet Parihar, and others were felcitated for their efforts. Similarly, Chartered Accountants including Amit Agarwal, Madhu Aganwal, Pyush Keswani, Paakep Mukherjee, Praveen Godbole, Sauruh Agarwal, Salivi Kumar Jaiswal, Vinay Goel, and Vinay Tandon were also honoared for their contributions. The program was attended by Club President Rathan Maheshwar, Nitin Agarwal, Saurabh Puri, Amitia Agarwal, and others.

### मुक बधिर विधालय में आत्मरक्षा का शिविर संवाददाता

स्यवादयता प्रयागराज । रोटरी इलाहाबाद सिद्धटाउन में रेड बेल्ट एफेडमी के सहयोग से गुरुवार को मुक बॉफर बियालय में आत्मरक्षा की आत्मरक्षा के उदेरय छात्रों का आत्मरक्षा के गुणी से अवनात कराना और उन्हें आत्मरक्षा के दिए प्रोतसादित करना है रेड बेल्ट एकेडमी के निदेषक प्रेतरियन स्पूर्ण को सामय आत्मरक्षा का महत्व आज के समय में बहुत अभिक है। आगरदक्षा कक्षा से छात्रों को आत्मविक्षास बढ़ता है। रेड बेल्ट हो आत्मरक्षा कक्षा से छात्रों को आत्मविक्षास बढ़ता होर हो अपनी दुस्ता के जित्मराक सोला का एकों से बचने में सक्त बानता है। रेड बेल्ट एकेडमी के किन्माग गुला, स्वर्थि गुला,दिव्यांशु



यादव, नीलेश केसरवानी,महिमा श्रीवास्तव ने भी बच्चों को आवास्तत्व न भा बच्चा को आतमरका के गुर सिखाए। इस अवसर पर विद्यालय के प्राध्यापक के एन मिश्रा, सह प्राध्यापक संजय,अध्यापकगण, क्लब अध्यक्ष राधा सबसेना, अभिषेक राजन सिंह,आशीष चौधरी, अभिषेक राजन अग्रवाल,मनु सक्सेना इत्यादि उपस्थित रहे।

#### रोटरी इलाहाबाद मिडटाउन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन



इरक्त सशक्त इ चले इस शिविर गर्व की ब पूर्व में भी र हुए एक बार अवश्य ही रक्तदान ही शरीर स्वस्थ रहता है। ाकार्यक्रम में नीरज अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल पंकज जैन

#### फिटनेस और बॉडी पॉजिटिविटी कार्यक्रम का आयोजन



रो टरी प्रयागराज। प्रयागराज । रोटरी इलाहाबाद मिंडटाउन ने युक्तवार डोटल करबा में फिटनेस और बॉदी पॉजिटिविटी पर एक गोडी का आयोजन किया। फिटनेस ट्रेनर प्रेरणा शरण ने बताया कि फिटनेस के लिए स्वस्थ हरीर और स्वस्थ मन रहना बहुत जरूसे है। नजत तरीके से घटाया गया जजन

रेपाल गायल व भेगा ना भेर जिने गर्ना पार्टि ना सार्टि करा कि का क उंकेवे दयारा बुग्याल देशिंग का अनुमव साझा किया कार्यक्रम में क्लब अरु खारा रासा सकसेना सविय नी रिफत बुग दी पीरी अग्रयाल अकिना परलमी अग्रयाल म्रह्यु अग्रयाल दिव्या बरतरिया महेश सिंघानिया आदि उपस्थित रहे।

# **Spirituality Helps Serve Mankind**

Spirituality is the path where POSITIVE THOUGHTS transform to NOBLE FEELINGS which lead to RIGHTEOUS ACTIONS to serve MANKIND through the MAN Like a bird with two wings the Spiritual wing helps to balance the Material wing to bring harmony, contentment and joy in the human being.

Thus he can work & serve with a calm mind and joyous heart with poise and humility.

After all Man is a mere speck in the ever expanding Cosmos and SPIRITUALITY is the GPS.

The humane qualities like compassion, gratitude, feeling to feel for the people around, comes when these feelings are expressed through serving mankind.

-By Radha Saxena



filled with love, laughter, and all the things that bring you happiness.



4<sup>th</sup> Aug- Satpal Gulatí 15<sup>th</sup> Aug- Ankít Gupta 21<sup>st</sup> Aug- Sanjay Gupta 24<sup>th</sup> Aug- Anuragíní Síngh 26<sup>th</sup> Aug- Pradeep Mukherjee 27<sup>th</sup> Aug- Peeyush Kesarwaní



6<sup>th</sup> Aug-Víneet Chawla E<sub>t</sub> Sonía Chawla

11<sup>th</sup> Aug- Abhílasha Nandí E<sub>t</sub> Nand Gopal Nandí

Thanks Compíled By Swatí Kharbanda